

नोटिस संख्या NSDC-MoMA-SAK-RFP-2020/10/15

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

दिनांक - 15/10/2020

“सीखो और कमाओ” योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आरएफपी जारी करने के संबंध में

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) उन संगठनों से प्रस्तावों को आमंत्रित करता है जो “सीखो और कमाओ” योजना के कार्यान्वयन के लिए RFP दस्तावेज़ में वर्णित पात्रता को पूरा करते हैं। यह योजना अल्पसंख्यक उम्मीदवारों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन) को प्रशिक्षित करने और वित्तीय वर्ष 2020- 21 के लिए है। प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) से जुड़े प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दिया जाएगा। योजना जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के निवासी और इनमें स्थित प्रशिक्षण केंद्र के लिए है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (मोमा) के “सीखो और कमाओ” योजना के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन होगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया RFP दस्तावेज़ देखें। इच्छुक आवेदकों को आरएफपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके प्रस्ताव जमा करना होगा। आरएफपी पोर्टल तक पहुँचने के लिए लिंक जल्द ही राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के नोटिस अनुभाग <https://nsdcindia.org/notice-current> के तहत प्रकाशित किया जाएगा। हार्ड कॉपी सहित कोई भी अन्य फॉर्म जमा नहीं किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2020/15 दिन आरएफपी पोर्टल के लाइव होने के बाद, जो भी पहले हो।

परियोजना के कार्यकाल के दौरान प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा पालन किए जाने वाले प्रमुख निर्देश निम्नलिखित हैं -

1. COVID-19 के दौरान प्रशिक्षण, प्रशिक्षण केंद्रों में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर परियोजना के कार्यकाल के दौरान प्रशिक्षण भागीदारों को संलग्न MoHFW दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। उन मुद्दों के लिए जिन्हें MoHFW दिशानिर्देशों में संबोधित नहीं किया गया है, संलग्न MSDE दिशानिर्देशों को संदर्भित किया जाएगा।
2. केवल आधार सक्षम उम्मीदवारों को योजना के तहत लिया जाएगा ताकि आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हो सके।
3. बायोमेट्रिक अटेंडेंस / AEBAS के लिए केंद्रों को आइरिस स्कैनर मशीन लगानी होगी।
4. इस योजना को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की "सीखो और कमाओ" योजना के संशोधित दिशानिर्देशों और एनएसडीसी की वेबसाइट पर लगे प्रकाशित Standard Operating Procedure (एसओपी) के अनुसार लागू किया जाएगा।
5. कृपया सभी प्रश्नों को sak.nsdci@nsdcindia.org पर भेजें।

द्वारा जारी:

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)

301, Third Floor, World Mark 1, 306, Northern Access Road, Aerocity,

दिल्ली 110037

वेबसाइट: www.nsdciindia.org